



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 19—नवम्बर 25, 2016 (कार्तिक 28, 1938)

No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 19—NOVEMBER 25, 2016 (KARTIKA 28, 1938)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग IV

### [PART IV]

[गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन और सूचनाएं]

[Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies]

#### NOTICE

NO LEGAL RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF INDIA. PERSONS NOTIFYING THE ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES WILL REMAIN SOLELY, RESPONSIBLE FOR THE LEGAL CONSEQUENCES AND ALSO FOR ANY OTHER MISREPRESENTATION ETC.

BY ORDER  
Controller of Publication

I, hitherto known as LAWRENCE NIGAM S/o BRAHAM SINGH NIGAM, R/o 118, Top Floor, Bhagwan Nagar, Ashram, New Delhi-110014, have changed my name and shall hereafter be known as MAHESH KUMAR SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

LAWRENCE NIGAM  
[Signature (in existing old name)]

#### CHANGE OF NAME

I, hitherto known as KUNAL SINGH Son of SURINDERPAL SINGH, residing at A-304, La Cresta Apartments, Sopan Baug, Pune-41001, have changed my name and shall hereafter be known as VIJAY SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KUNAL SINGH  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SARLA VERMA wife of MAN MOHAN VERMA and daughter of Sh. SHYAM LAL SACHDEVA, residing at #211, Shivalik Enclave, NAC, Manimajra (U.T.) Chandigarh-160101, have changed my name and shall hereafter be known as SARLA SACHDEVA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SARLA VERMA  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Manish Mishra son of Harish Chandra Mishra, residing at B-605, Jeevan Apartment, GH-7, Sector-6, Vasundhara, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201012, have changed my name and shall hereafter be known as Manish Kumar Mishra.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Manish Mishra  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as RAMESH KASHEEMSAB HAROBIDI S/o KASHEEMSAB (Muslim), working as Driver cum Conductor in BMTC., and now residing at Bengaluru Mahanagara, Sarige Sounshte Ghatak-16, Deepanjali Nagar, Mysore Road, Bangalore-560026, Karnataka State, have changed my name and shall hereafter be known as REHMANSAB KASHEEMSAB HAROBIDI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAMESH KASHEEMSAB HAROBIDI  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Sarojna Devi wife of Jitendra Singh, residing at B-224, A. V.Nagar, August Kranti Marg, New Delhi-110049, have changed my name and shall hereafter be known as Saroj Rautela.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Sarojna Devi  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Vishnu Kumar S/o Late Sh. Pyare Lal Gupta, R/o RZ-51C, Dada Chhatri Wala Marg, Gali No.6, Raj Nagar, Part-I, Palam Colony, New Delhi-110077, have changed my name and shall hereafter be known as Vishnu Kumar Gupta.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Vishnu Kumar  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as E. Bhagya D/o Shri Venkataramanna employed as CT/SWP in the DG, SSB, FHQ, Sector-01, East Block-V, R.K. Puram, New Delhi-110066, residing at H.No.141, Prajapati Colony, Kumhar Basti, Mohammadpur Village, New Delhi-110066, have changed my name and shall hereafter be known as K. Bhagya.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

E. Bhagya  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Baij Nath S/o Sh. Sukh Dev Gond, residing at H.No. 990, Type-II, D.A.Flats, Gulabi Bagh, Delhi-110007, have changed my name and shall hereafter be known as Amit Gond.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Baij Nath  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Usha Kumari Kankran D/o Sant Singh Kankran, residing at H.No.-2490, Sector-8, Faridabad-121006 Haryana, have changed my name and shall hereafter be known as Anusha Kankran.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Usha Kumari Kankran  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Amarjit Kaur Dulay W/o Harbans Singh, resident of Vill Mianwal, PO-Mau Sahib, Tehsil Phillaur Distt Jalandhar-144035 Punjab, have changed my name and shall hereafter be known as AMARJIT KAUR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Amarjit Kaur Dulay  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Sandiya Rani Alias Neena Thapar W/s Ravinder Kumar, resident of HNo-13536, St No.-15, Vishkarma Colony Dholewal, Ludhiana-141001 Punjab, have changed my name and shall hereafter be known as SANDIYA RANI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Sandiya Rani Alias Neena Thapar  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Anil Lal alias Anil P. Lal son of Late Shri Pyare Lal, residing at A1/320, Sector-17, Rohini, New Delhi-110085, have changed my name and shall hereafter be known as Anil Lal.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Anil Lal alias Anil P. Lal  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Karan S/o Balram Arora, residing at H.No.-105, A/3 Rishi Nagar, rani Bagh, New Delhi-110034, have changed my name and shall hereafter be known as Karan Arora.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Karan  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as BHAVNA daughter of Late Kundan Lal, residing at 6/48, WEA, Gurudwara Road, Karol Bagh, New Delhi-110005, have changed my name and shall hereafter be known as BHAVNA MALHOTRA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

BHAVNA  
[Signature (in existing old name)]

I, Mehar Singh son of Bakhtawar Singh employed as L/ NK in the Indian Army, residing at Q.No.265, Type-I, Police Colony, Shalimar Bagh, Delhi-110088, have changed the name of my minor son Preet Prakash Singh aged 3 years and he shall hereafter be known as Prabhjot Singh.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Mehar Singh  
[Signature of Guardian]

I, hitherto known as Banty Bansal wife of Shri Anil Kumar, residing at H.No.411, Bali, Near Mata Mandir, Bali, Baghpat, U.P.-250601, Delhi-110086, have changed my name and shall hereafter be known as Pooja.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Banty Bansal  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Chandmal Vaishnav S/o Narayan Das Vaishnav, residing at Village-Mansingh Ka Kheda, Chougawadi, Tehsil-Gangrar District-Chittorgarh-312901 Rajasthan, have changed my name and shall hereafter be known as Arjun Vaishnav.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Chandmal Vaishnav  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Palwinder Singh son of Rajinder Singh Madhra, resident of H. No. 927, Phase-4, SAS Nagar, Mohali-160059 Punjab, India, have changed my name and shall hereafter be known as Palwinder Singh Madhra.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Palwinder Singh  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Rajinder Singh son of Sital Singh, resident of H. No. 927, Phase-4, SAS Nagar, Mohali-160059, Punjab, India, have changed my name and shall hereafter be known as Rajinder Singh Madhra.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Rajinder Singh  
[Signature (in existing old name)]

I, Surender Singh son of Umed Singh, employed as F.O. in D.F.S. Delhi residing at H.No.70, Village-Bamnoli, Dwarka, Sector-28, Phase-II, New Delhi-110077, have changed the name of my minor son Talesh Lochav aged 11 years and he shall hereafter be known as Rudra Lochav.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Surender Singh  
[Signature of Guardian]

I, hitherto known as Ravi son of Rajesh Kumar, residing at 129-B, Rajendra Park Extension, Nangloi, Delhi, have changed my name and shall hereafter be known as Ravi Kumar.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Ravi  
[Signature (in existing old name)]

I, Surender Singh son of Umed Singh employed as F.O. in D.F.S. Delhi, residing at H.No.70, Village-Bamnoli, Dwarka, Sector-28, Phase-II, New Delhi-110077, have changed the name of my minor daughter Lavanya Lochav aged 9 years and she shall hereafter be known as Chaitanya Lochav.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Surender Singh  
[Signature of Guardian]

I, hitherto known as RIYA D/o Sh. DHARMENDER KUMAR BHARDWAJ, residing at A-81, First Floor, Dayanand Colony, Lajpat Nagar-IV, New Delhi-110024, have changed my name and shall hereafter be known as RIYA BHARDWAJ.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RIYA  
[Signature (in existing old name)]

---

I, Manoj Kumar Sharma son of Makhan Lal Sharma, residing at H.No. 547, Gali No. 18, Near Dev Mandir, Vijay Park, Maujpur, Delhi-110053, have changed the name of my minor son Kanishk Sharma aged 15 years and he shall hereafter be known as Abhinav Sharma.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Manoj Kumar Sharma  
[Signature of Guardian]

---

I, hitherto known as JASPREET KAUR wife of SATPAL SINGH, residing at Vill Datta, PO. Saidupur, Distt. Hoshiarpur, 144203, Punjab, have changed my name and shall hereafter be known as MANPREET KAUR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

JASPREET KAUR  
[Signature (in existing old name)]

---

I, hitherto known as Krishnakumar P. alias Krishnakumar Porakkad alias Krishnakumar Nayar son of R. Gopalakrishnan Nair, residing at A402, Radhe Residency, Kudasan, Gandhinagar-382421, Gujarat State, have changed my name and shall hereafter be known as Krishnakumar Nair.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Krishnakumar P. alias Krishnakumar Porakkad alias  
Krishnakumar Nayar  
[Signature (in existing old name)]

---

I, hitherto known as DHARMINDER KUMAR son of Late Sh. KIRPA RAM, R/o Vill. Vikas Nagar, P.O. Daruhi Teh. & Distt. Hamirpur (H.P.), have changed my name and shall hereafter be known as DHARMENDER KUMAR DAROCH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

DHARMINDER KUMAR  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as RAMESH CHAND son of Late Sh. TALVE RAM, R/o Village & P.O. Bharai, Teh. & Distt. Kullu (H.P.), have changed my name and shall hereafter be known as RAMESH CHAND THAKUR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAMESH CHAND  
[Signature (in existing old name)]

---

I, hitherto known as SURINDER KUMAR son of Sh. Rattan Chand, R/o Vill. & P.O. Virgarh, Tehsil Kumarsain, Distt. Shimla (H.P.), have changed my name and shall hereafter be known as SURINDER KUMAR DOGRA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SURINDER KUMAR  
[Signature (in existing old name)]

---

I, hitherto known as RAMESH CHAND son of Late Sh. MEHAR CHAND, R/o Vill. Jhakri, P.O. Fozal Teh. & Distt. Kullu (H.P.), have changed my name and shall hereafter be known as RAMESH CHAND SHARMA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAMESH CHAND  
[Signature (in existing old name)]

---

I, hitherto known as DEEPAK Kumar Shankar Rao Sawant S/o Shankar Rao Ganpat Rao Sawant, R/o E-405, Nirala Eden Park Ahinsa Khand-2, Indirapuram, Ghaziabad, have changed my name and shall hereafter be known as Deepak Sawanty.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

DEEPAK Kumar Shankar Rao Sawant  
[Signature (in existing old name)]

---

I, hitherto known as Balu Raj son of Amburose employed as Telecom Mechanic, Government of India, residing at Old No. 4-70 B, New No. 4-12A, Kottavilai Veedu, Panamugam, Kanjampuram Post Kanyakumari District-629154, Tamil Nadu, have changed my name and shall hereafter be known as Babu Raj.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Balu Raj  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as PRASANNA KUMARY .R wife of Vijayakumaran Nair.P, a house wife residing at Pranavam House, Palliyamattom Compound, Thalayolaparambu P.O., Pin-686605, Kerala, have changed my name and shall hereafter be known as PRASANNA VIJAYAN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PRASANNA KUMARY .R  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as RAJ KUMAR son of Late RATAN LAL, employed as Assistant Controller of Finance & Accounts (FYS)/ A/c No. 8319256 in the office of Accounts Office, High Explosive Factory, Kirkee, Pune, residing at S.No. 24, Lane No. 2, Anu Saheb Building, Munjaba Basti, Dhanori, Pune-411015, have changed my name and shall hereafter be known as RAJ KUMAR BHARDWAJ.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAJ KUMAR  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as RAMESH KUMAR son of P. MADHUSOOTHANAN NAIR, employed as LT CDR in the Indian Navy, residing at 36 Vandana, Vandana & Vishakha Building, Near RC Church, South Colaba, Mumbai-400005, have changed my name and shall hereafter be known as RAMESH KUMAR NAIR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAMESH KUMAR  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Amarjit Kaur wife of Sh. Tarlok Singh employed as Housewife, residing at Vill. Jalwerah, PO Toderpur, Tehsil Garhshankar, Distt. Hoshiarpur (Punjab), have changed my name and shall hereafter be known as Asha Rani.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Amarjit Kaur  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Manju Choudhary wife of Sh. Manjeet Singh employed as Agent & Advisor with Max Life Insurance, Delhi 110034, residing at House No. 434, Old Dispensary Wali Gali, Mangolpur Kalan, Rohini, North West Delhi, Delhi 110085, have changed my name and shall hereafter be known as Mansi Singh.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MANJU CHOUDHARY  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Shubham S/o Smt. Kirti Talwar, R/o CU-145, Pitam Pura, Delhi-110034, have changed my name and shall hereafter be known as Shubham Talwar.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Shubham  
[Signature (in existing old name)]

#### PUBLIC NOTICE

It is for general information that I Mohan Kuruvilla S/o Shri. K. V. Kuruvilla residing at No: 16, KU Lane, DP Street, Near Mosque, Lillypur, Haddo, Port Blair Tehsil, Andaman & Nicobar islands, Pin - 744102 declare that name of mine has been wrongly written as K. Mohan in my educational documents / service books and in other documents. The actual name of mine is Mohan Kuruvilla respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Mohan Kuruvilla  
[Signature]

It is for general information that I NARAYAN NANDY son of MAHABIR NANDI residing at Hatapara/ Lichutala 4th Lane, P.O. Krishnanagar, P.S. Kotwali, Dist. Nadia. Pin-741101 declare that name of mine wrongly written as NARAYAN NANDY in my service book and in the other documents. The actual name of mine is NARAYAN NANDI respectively, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NARAYAN NANDY  
[Signature]

It is for general information that I Tapan Pradhan S/o Srimanta Pradhan residing at 79-A, Kishan Garh, Vasant Kunj, New Delhi-110070 declare that name of my father has been wrongly written as Bharati Pradhan in my Driving license. The actual name of my father is Srimanta Pradhan. which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Tapan Pradhan  
[Signature]

It is for general information that I Sushma W/o Shri Chain Singh residing at S-264-A, School Block, Shakarpur, Delhi-110092 declare that name of mine has been wrongly written as Sushma Singh in my minor daughter Yashika

Choudhary aged 15 years educational documents. The actual name of mine is Sushma. which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Sushma  
[Signature]

It is for general information that I Monika Gumber w/o Puneet Gumber residing at 54-A D.D.A. Flats LIG, Jhilmil Colony Shahdara, Delhi-110095 declare that name of mine has been wrongly written as Sheetal Gumber in my minor son's Keshav Gumber aged 15 years Birth Certificate & School Record. The actual name of mine is Monika Gumber. which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Monika Gumber  
[Signature]

It is for general information that I Beenu Jain w/o Rajneesh Jain residing at IX/1995, Street No.4, Kailash Nagar, Delhi-110031 declare that name of mine has been wrongly written as Madhu Jain in my minor daughter's Anshika Jain aged 17years and Archi Jain aged 15years 10th , 12th and School Record. The actual name of mine is Beenu Jain. Which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Beenu Jain  
[Signature]

It is for general information that I Billor Singh Sidhu S/o Gurnam Singh residing at VPO-Bhagike, Distt.-Moga, Punjab-142055 declare that name of mine has been wrongly written as Balor Singh Sidhu in my Pass Port. The actual name of mine is Billor Singh Sidhu which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Billor Singh Sidhu  
[Signature]

It is for general information that I Abhishek Nishad S/o Sanwle Kumar residing at J-1613, Jahangirpuri, New Delhi - 110033 declare that name of my father has been wrongly written as Sanwlay Kumar in my PWD Certificate. The actual name of my father is Sanwle Kumar, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Abhishek Nishad  
[Signature]

It is for general information that I Avanish Kumar Pathak S/O Vijay Shankar Pathak residing at 68K, Atma Nagar, Saidpur, Ghazipur, U.P. 233304 declare that name of my father has been wrongly written as Shankar Vijay in my PAN card (AVEPA0209N). The actual name of my father is Vijay Shankar Pathak which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Avanish Kumar Pathak  
[Signature]

It is for general information that I Mangal Chandra Singh S/O Late Shri Sukkar Chandra residing at Bachhowal, Tehang, Jalandhar, Punjab-144410 declare that name of mine and my father has been wrongly written as Mangal Chandra Rabidas and Sukkar Rabidas in my 10th Class School Certificate. The actual name of mine and my father is Mangal Chandra Singh and Sukkar Chandra which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Mangal Chandra Singh  
[Signature]

It is for general information that I Ammu Naga Venkata Satya Sridevi w/o Ammu Venkatadri residing at 36/19, Piru Vihar, Delhi Cantt., Delhi-110010 declare that name of mine has been wrongly written as A Sridevi in my minor daughter's Ammu Ankitha aged 14years Kendriya Vidyalaya Sangathan School Record. The actual name of mine is Ammu Naga Venkata Satya Sridevi. which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Ammu Naga Venkata Satya Sridevi  
[Signature]

It is for general information that I BABITA AGGRAWAL W/o SANTOSH AGGRAWAL residing at no. 17, Manendragarh P.O Manendragarh Distt. Koria (C.G) has been wrongly written as Sakshi Aggrawal in my minor son's Sanskar Aggrawal educational document and in the other document. The actual name of mine is Babita Aggrawal respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

BABITA AGGRAWAL  
[Signature]

## खरगोन ट्रांसमिशन लिमिटेड

नई दिल्ली 110065, CIN - U40300DL2015GOI287933

## सार्वजनिक सूचना

खरगोन ट्रांसमिशन लिमिटेड, जिनका पंजीकृत कार्यालय एफ-1 "दि मीरा कॉर्पोरेट सुइट्स" 1 और 2 ईश्वर नगर, ओखला क्रॉसिंग, मथुरा रोड, नई दिल्ली 110065, भारत पर स्थित है, भारत सरकार को आवेदन करने जा रहे हैं कि उन्हें विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-164 के तहत विद्युत प्रसारण हेतु या टेलीफोनिक अथवा टेलीग्राफिक संचार हेतु आवश्यक विद्युत लाइनें बिछाने या विद्युत संयंत्र स्थापित करने हेतु कार्य के योग्य समन्वयन के लिए वे सभी शक्तियाँ प्रदान की जाएँ जोकि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ लाइनों तथा खंभे लगाने हेतु टेलीग्राफ प्राधिकरण में निहित हैं और जो स्थापित टेलीग्राफ के उद्देश्य से या स्थापना, संचालन, रखरखाव तथा अन्य सरकारी कार्यों के लिए निम्न प्रसारण योजनाओं के लिए आवश्यक हैं—

प्रसारण कंपनी का नाम — खरगोन ट्रांसमिशन लिमिटेड

कंपनी द्वारा किए जाने वाले कार्य—

## A. खरगोन STPP के लिए कनेक्टिविटी प्रणाली

- i. खरगोन TPP पर राजगढ़-खंडवा 400kV D/C लाइन के एक ckt का LILO (LILO का उपयोग स्टार्टअप पॉवर तथा कमिशनिंग गतिविधियों के लिए किया जाएगा। शेष प्रसारण प्रणाली की स्थापना के बाद LILO को खरगोन जनरेशन स्विचयार्ड पर बाइपास किया जा सकता है और केवल आकस्मिकता की परिस्थितियों में उसका उपयोग किया जाएगा)
- ii. खरगोन TPP स्विचयार्ड-खंडवा पूल 400kV D/C (क्वाड) लाइन

## B. खरगोन TPP की समय सीमा में WR में प्रणाली का मजबूतीकरण

- i. खंडवा पूल-इंदौर 765kV D/C लाइन
- ii. खंडवा पूल-धुले 765kV D/C लाइन
- iii. खंडवा में 765/400kV, 2x1500MVA पूलिंग स्टेशन की स्थापना

765 kV

- ICTs: 7x500MVA, 765/400kV (1 अतिरिक्त यूनिट)
- ICT बे: 2 संख्या
- लाइन बे: 4 संख्या (खंडवा पूल-इंदौर 765 kV D/C के लिए 2 संख्या और खंडवा पूल से धुले 765kV D/C के लिए 2 संख्या)
- बस रिएक्टर: 3x80 MVAr
- बस रिएक्टर बे: 1 संख्या
- स्विचेबल लाइन रिएक्टर: 7x80 MVAr (1 यूनिट अतिरिक्त यूनिट के रूप में है) खंडवा पूल-धुले 765kV D/C के लिए (प्रत्येक 240 MVAr रिएक्टर 800Ω NGR और उसके सहायक उपकरणों के साथ)
- लाइन बे के लिए स्थान (भविष्य में): 4 संख्या
- ICT बे के लिए स्थान (भविष्य में): 3 संख्या
- 1500MVA, 765/400kV ICTs के लिए स्थान (भविष्य में): 3 संख्या

400kV

- ICT बे: 2 संख्या
- खरगोन-खंडवा PS 400kV D/C लाइन के टर्मिनेशन के लिए लाइन बे: 2 संख्या
- बस रिएक्टर: 1x125MVAr
- बस रिएक्टर बे: 1 संख्या

- लाइन बे के लिए स्थान (भविष्य में): 6 संख्या
- ICT बे के लिए स्थान (भविष्य में): 3 संख्या

iv. खंडवा पूल-धुले 765 kV D/C के लिए धुले में BDTCL के 765/400kV उपस्टेशन पर 765 kV बे की 2 संख्या और 7x80MVAr लाइन रिएक्टर्स (1 यूनिट अतिरिक्त के रूप में) के साथ 800Ω NGR और उसके सहायक उपकरण।

उपरोक्त प्रसारण परियोजना को भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा उनके पत्र दिनांक 02.02.2016 के जरिये विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 68 के तहत मंजूरी मिल चुकी है।

योजना में आने वाली प्रसारण लाइनें निम्न तहसीलों, तालुकों, मंडलों, खंडों, ग्रामों, कस्बों और शहरों से, उनके ऊपर से, उनके बाजू से और उनके बीच से गुजरेंगी।

खंडवा पूल-धुले 765 kV D/C प्रसारण लाइन

अनु क्र.	ग्राम का नाम	तहसील	जिला
1.	कटार, मोरटक्का माफी, मोरघडी	पुनासा	खंडवा (पूर्वी निमाड़), मध्य प्रदेश
2.	सनावद, खनगाँव, रूपखेड़ा, नन्दगाँव, देलवाड़ा, रामगढ, कटगढा, अलीबुजुर्ग, धनपाल्या, अलीखुर्द, टोकसर, टोकसर खुर्द, बड़ूड, गवल, सताजना, गलगौव, कालबरड, अगरगाँव, खुजरातखेड़ा, पीतनगर, फनगाँव, राहटकोट, नीलकंठ, भुलगौव, नीमखेड़ी, चितावद, तामोलिया, भोगावां, रूपखेड़ी, नेहगाँव, भोगावां सिपानी, माहेगाँव, मेहगाँव, खड़कई, काकरिया, जयखेड़ा, नीमसर, उमट्टी, रावेर, रावेर खुर्द, खेड़ी, पाछला, सागवी, बड़गाँव, भोगावां निपानी, चिचगौन, जन्याखेड़ी, ताजपुरा, डाल्याखेड़ी, खानपुरा, सिकन्दरखेड़ी, भगोरा, दुदगाँव, डुडगाँव, भुगदड़, भातुड़, दाभड़, जुलवानिया, आरसी मिर्जापुरा, टाकली, रामपुर, सजरवाँ, कातोरा, कानापुर, बकावाँ, मर्दाना, नगावा, शाहपुरा, अमरपुरा, लौंडी, जिरभार, बिजगोहन, डालची, सेल्दा, मिर्जापुर, केडी बुजुर्ग, दाभड़, बालाबाद, नलवट, नादिया, कपासी, साला, बेलसर, रावेरखेड़ी, पीपलगोहन, जामन्या, भोकरीया, राजपुरा, खमलाय	सनावद	खरगोन (पश्चिमी निमाड़), मध्य प्रदेश
3.	पीपलपाटी, बड़दिया सुर्ता, चकबठोली, ताजपुरा, बठोली, लखनपुरा, दामखेड़ा, धुवाटिया, मंगातखेड़ी, खैयगाँव, देवनाल्या, निमगुल, भामपुरा, भगडपूरा, सिटोका, कवडिया, पितामली, सेमल्दा, हीरापुर, नवलपुरा, काकरिया, हमीरपुरा, घुवातिया, निमसर, बरलाय, सुल्तानपुरा, खेड़ी बुजुर्ग, गौल, डेहरिया, अहिल्यापुर, करोंदिया, सांगवी, खेड़ी, जमानिया, कुण्डिया, सुर्वा, मिर्जापुर, राजपुरा, रूपखेड़ा, गवला	महेश्वर	खरगोन (पश्चिमी निमाड़), मध्य प्रदेश
4.	बड़वाहा, डेहरी, केडी बुजुर्ग, टोंकी, हीरापुर, जयमलपुरा, बफलगाँव, रतनपुर, सुस्तय, रामगढ, वेलसर, नवलपुरा, किटुद, गंगवाड़ा, भगावा, सुल्तानपुरा, मुरल्ला, हमीरपुरा, करोंद, अमलाथा, गंगापुर भोरी, सातखेड़, ओझारा, सेमरला, कपास्थल, टोकसर खुर्द, कालवरद, सिरलाय, लखनपुरा, सांगवी, सेल्दा, नादिया, खामखेड़ा, अहिल्यापुरा, उमरिया, जामन्या, गौल, कुण्डिया, पंधान्या, टेमला, बरखेड़ा, राजपुरा, चन्दनपुरा, रूपखेड़ा, नेहगाँव	बड़वाह	खरगोन (पश्चिमी निमाड़), मध्य प्रदेश
5.	खेड़ी बुजुर्ग, खराडी खुर्द, सुर्वा, मोराला, सहेजला, कमोदवाड़ा, खेड़ीखुर्द, मुहाली, भनगाँव, भोपाड़ा, डेहरिया, भटियानखुर्द, डोमवाड़ा बुजुर्ग, नानकुन्ड, मुल्तान, भातुड़, पंचदेवली, गिरडियांव, खामखेड़ा, कनडगाँव, बलवाड़ा, कवडी, सांगवी (खामखेड़ा), गोलपुरा, चकरिया, डाभा, खमलाय, बाडी, पिपरी, पीपलगोन, भग्यापुर, बरखेड़ा, सामेड़ा, सखरदेवला, बहादरपुरा, पिपलई, बोरावाँ, उमरिया, वायतेल, उटावद, भनगाँव, कवडी, डेड़गाँव, दुर्गापुर, मथडाय, सिपटान, सातवाडी, गोल, रामपुरा, भुलगौव, बड़गाँव, बामखल, बरसलाय, कोंड़ापुरा, रायपुरा, मुरादाबाद, साधुपुरा, मुकुन्दपुरा, सागवी,	कसरवाड़	खरगोन (पश्चिमी निमाड़), मध्य प्रदेश



अनु क्र.	ग्राम का नाम	तहसील	जिला
	सोनखेड़ी, जामला, चंदनपुरी, घाटबड़िया, सांगवी, लश्करपुरा, सोमापुरा, जावदा, सावदा, बिठौर, नारायणपुरा, बैसरकुण्ड, पोखर, साबड़ा, धरमपुरी, अघावन, सेलानी, बाल्यापुरा, सैलानी, खेड़ी, गुजारी, बालखेड़ी बुजुर्ग, टेमरनी, जलज्योती, कुसुमपुरा, सुर्वा, भोकरिया, सिनगुन, बलकवाड़ा, कुण्डिया, मुखलियापुरा, बड्या, कातरिया, रसवा, बैंगन्दी, मिर्जापुर, हीरापुर, नादिया, डोमवाड़ा खुर्द, हमीरपुरा, रूपखेड़ा, आरसी मिर्जापुरा, अहिल्यापुरा, करोदिया, खेड़ी बुजुर्ग, भारचो, गोपालपुरा, ओझारा, बाजीटपुरा, मनचर, रहीमाबाद, लोहारी, जामन्या, पिपलझोपा, हतोला, साईखेड़ा, अमलाथा, राजपुरा, भरनिया, भट्याण बुजुर्ग, रूपखेड़ा, बलखड़ खुर्द, बलखड़ बुजुर्ग, सातनपुरा, मुखत्यारपुरा, आवल्या		
6.	सुर्वा, डोमवाड़ा बुजुर्ग, मुल्थान, सतवाड़ी, वायतेल, रतनपुर, ककड़गाँव, बिटनेरा, हीरापुर, पिपरी, रामपुरा, जामन्या, टेमला, पिपरी, डोंगरगाँव, बंजारी, राजपुरा, पोखरबुजुर्ग, साला, पाड़ल्या	भीकनगाँव	खरगोन (पश्चिमी निमाड़), मध्य प्रदेश
7.	बैगंडी, घुंघरी, लतीफपुरा, मोणपुरा, इमलीपुरा, लिक्खी, रमणगाँव, राजूर, रामपुरा (जुलवानिया), पन्धान्या, छालपा, इदारतपुर (इनामी), निमगुल, मेनगाँव, रामपुरा (आसनगाँव), आसनगाँव, टेमला, पिपरी, उबदी, अघावण, अकावल्या, गवला, इच्छापुर, बगूद, नंदगाँव (बगूद), आवली, डेहरी, साईखेड़ा, लोनारा, घेघांव, भमौरी बुजुर्ग, चितावल, दामखेड़ा, बहादरपुरा, शाहपुरा, औरंगपुरा, लोहारी, नारायणपुरा, हसनपुरा, दसंगा, बरखेड़ा, भमौरी खुर्द, खेड़ी बुजुर्ग, गौल, दामड़, अघावण, पोखर खुर्द, पिपराटा, पोखर बुजुर्ग, साल्या, बालखड़ बुजुर्ग, बालखड़ खुर्द	खरगोन	खरगोन (पश्चिमी निमाड़), मध्य प्रदेश
8.	जामन्या, खामखेड़ा, पिपलई, गोपालपुरा, कुण्डिया, जुलवानिया, डोंगरगाँव, दसनावाल, केड़ी बुजुर्ग, गौल, पिपरखेड़ा, रूपखेड़ा, आंवली	गोगाँवां	खरगोन (पश्चिमी निमाड़), मध्य प्रदेश
9.	गांधाण्ड, रसगाँव, बरना, चितावल, गाटला खेड़ी, बंदियापुरा, कचनारवाड़ी, दसनावल, खिरकिया वाड़ी, भूरापानी, सतावड, कमोदवाड़ा, बिरला, जामन्या, ढोरीयावाड़ी, जलगोन, तलकपुरा, गयासपुरा, जामोठी, पनवाड़ा, पनाली, उपड़ी, बोरी, केली, बनिहार, चिचगढ, आचलवाड़ी, चिचली, सीतापुरी, शरदपुरा, जोजलवाड़ी, दामखेड़ा, खामखेड़ा, लेहकू, गोलवाड़ी, दोमावाड़ा, भीकारखेड़ी, सेगाँव, खोलगाँव, कलमपुरा, पाड़ला, बोलबलवाड़ी, नीलकंठ, गोलपुरा, तिरी, कोलखेड़ा, सतावड, दावलापिपरी, चन्दावड, केड़ी बुजुर्ग, गौल, जोगवाड़ा, रेहगुन, सेगंवी, बनीहार	सेगाँव	बड़वानी, मध्य प्रदेश
10.	रसवां, रूपखेड़ा, केड़ी बुजुर्ग, गौल, लहड़गाँव, भगवानपुरा, बाघड़, शाहपुरा, काकरिया, गवला, पिपरखेड़ा	ठीकरी	बड़वानी, मध्य प्रदेश
11.	घुसगाँव, कादवी, बोलबल वाड़ी, भोरवाड़ा, गोलपुरा, लहड़गाँव, टाकली, खापरखेड़ा, ओझर, लफनगाँव, नान्देड़, सालीटाण्डा, सालीकला, बघाड़, आवल्या, नीलकण्ठ, नागलवाड़ी खुर्द, नागलवाड़ी बुजुर्ग, देवनली, मातमुर, केड़ी बुजुर्ग, गौल, साली खुर्द, जुलवानिया, चितावल, भुलगाँव, रुई	राजपुर	बड़वानी, मध्य प्रदेश
12.	पिपरखेड़ा, शिरपुर, जामन्या, जामपाटी, जामली, कलाल्दा, वाकी, वाकी उर्फ गोई, तलकपुरा, बनिहार, मेहतगाँव, तिघली, घुड़चाल, कुसमी, कालापाट, झापड़ीपाड़ला, राजगढ, पिपल्याडेब, कोलखेड़ा, शिवन्या पानी, रलावती, चिखली, मोरदड़, बिजापुरी, पिपलधार, सेंधवा, नवलपुरा, बोरली, जुलवानिया, सेगवी, अंजनगाँव, कांकरया, भामनिया, बाबदड़, बाबधार, शाहपुरा, गोंदी, हिन्दली, मोहाला, भवरगढ, सोलवाँ, मालवाँ, आंछली, बख्तरिया, डोंगरगाँव, जमानिया, राइखेड़ा, गौड़ी, हिंडली, माड़सिंगिया, कुंडिया, कोलकी, राजमाली, उमरिया, मूरतमाल, अंबापानी, नंदिया, राइखेड़ा, गावड़ी, काकड़माल, मूरतमाल, खापरखेड़ा, पांजरिया, कमोदवाड़ा, शिवन्या, पिपल्या गोई, मड़गाँव, सेमल्या, केड़ी बुजुर्ग, पिपरखेड़ा, कोलकी, बोरघाट, जोड़ मोहरा	सेंधवा	बड़वानी, मध्य प्रदेश

अनु क्र.	ग्राम का नाम	तहसील	जिला
13.	कुण्डिया, मालवन, सोलवन, कोलकी, भवरगढ, राजमली, उमरया, मूरतमाल, अंबापानी, नंदिया	वारला	बड़वानी, मध्य प्रदेश
14.	जामन्या, राई, गवाड़ी, काकड़माल, मूरतमाल	निवाली	बड़वानी, मध्य प्रदेश
15.	काकड़माल, दुबंडीया, दुर्बंडीया, पलासनेर, खेरखुटी, पनाखेड, शेमल्या, मोहिदे, वकवाड, उमर्दे, झेंडेअंजन, हातेड, सांगवी, जोईदा, वरझडी, हाडाखेड, बुटकी विहीर, दोंदवाडी, बोराडी, चांदीपाडा, खारीखान, टेंभेबुरा, अरुणापुरी, नोंदर्डे, वाघबरडा, सामरियापाडा, हिंगोणी, लौकी, नातवाडे, सुले, दहीबद, अजंदे खुर्द, कलमसरे, करवंद, मंडल, सुभाष नगर, निमझरी, वाघाडी, वाडी खुर्द, वाडी कुर्वे, आढे, चांदपुरी, हिंगोणीपाडा, भरवाडे, रुडावली, जातोडे, बोरगाँव, हिंगोई, शिंगाणे, शिरपूर, आमोदे, गरताड, आढे, ताजपुरी, जैतपुर, पिंप्री, कुरखली, साकवड, उंटावद, सावलाडे, बाभुलदे, खर्दे खुर्द, गिधाडे, बालदे, उपरपिंड, सुकवड, जामन्यापाडा, चांदसूर्य, वरवाडे, नवापाडा, आर्थे खुर्द, खामखेडा, पाथडी, वनावल, टेंभे, चोंडी, कोलशापानी, हेदरिया, गुजर खरडे	शिरपूर	धुले, महाराष्ट्र
16.	अक्कडसे, सोनेवाडी, वरसुस, पाटण, सुलवाडे, सुकवद, तावखेडा, कमखेडा, हुंबर्डे, वाडली, शिरोले, गावने, दत्ताणे, वार्पी, टेमलाय, चिरणे, दसवेल, अजंदे खुर्द, पिंप्राड, वारुड, जातोडा, मेलाणे, नरडाणा, कुभारे, डाबली, धांदरणे, होल, कंदाने, बाभुलदे, महालपुर, खलाणे, चांदगड, वायपुर, विटाई, गोराणे, पिंपरखेडा, सार्वे, कलमाडी, वालखेडा, वाघाडी खुर्द, वाघाडी, बाभलदे, सोंडले, डांगुर्णे, दराणे, दाभाशी, वाघोदे, निरगुडी, मालीच, नवापाडा	शिंखेडा	धुले, महाराष्ट्र
17.	सोनगीर, दापुरी, दापुरा, लोणकुटे	धुले	धुले, महाराष्ट्र

## खरगोन TPP पर राजगढ़-खंडवा 400kV D/C LILO

अनु क्र.	ग्राम का नाम	तहसील	जिला
1.	डालची, बिजगोहन, लौंदी, अमरपुरा, शाहपुरा, कातोरा, कानापुर, टाकली, बड़गाँव, खानपुरा, आरसी, आरसी मिर्जापुर, दाभड़, मरदाना, रावेर, नगावा, मलगाव, जिरभार, झिरनिया, मोहाली, भटियार बुजुर्ग, सेल्दा, बाकनवा, मरदाना, खेड़ी	सनावद	खरगोन, मध्य प्रदेश
2.	सांगवी, जुलवानिया, सेल्दा, बलवाडा, लौंदी	बड़वाह	खरगोन, मध्य प्रदेश
3.	आरसी मिर्जापुर, खेड़ी	कसरावद	खरगोन, मध्य प्रदेश
4.	झिरन्या	महेश्वर	खरगोन, मध्य प्रदेश

## खरगोन TPP SY -खंडवा पूल 400kV D/C क्वाड लाइन

अनु क्र.	ग्राम का नाम	तहसील	जिला
1.	दाभड़, आरसी मिर्जापुरा, भगोरा, भातुड, खानपुरा, दलियाखेड़ी, डुडगांव, सिकंदरखेड़ी, चिचगांव, भोगाँव निपानी, भोगाँव सिपानी, कपासी, नीमखेड़ी, नीलकंठ, भूलगांव, अगरगाँव, कालबरड, सताजना, रायझर, खुजरात खेडा, गलगाँव, गवल, रुपखेडा, सनावद, रुपखेड़ी, टोकलाय, खनगाँव, दिलवाडा, बडूद, नन्दगाँव, डालची, जिरभार,	सनावद	खरगोन, मध्य प्रदेश

अनु क्र.	ग्राम का नाम	तहसील	जिला
2.	बड़गाँव, रावेर खेड़ी, पाछला, उमट्टी, काँकरिया, फनगाँव, धुलवाड़ा, जनैया खेड़ी, खेड़ी, ताजपुरा, बकांवा, राहदकोट, जायखेड़ा, पीतनगर, भवरदा, टोकसर, धनपाल्या, अली बुजुर्ग, अली खुर्द, भूगदड़, दुदागाँव, भोगगाँव, चितावद, बेड़िया, लछोरा, मोरघड़ी, रावेर, टोकसर खुर्द, सेल्दा	बड़वाह	खरगोन, मध्य प्रदेश
3.	बलवाड़ा, जुलवानिया, कपास्थल, ओझरा, गंगापुरा भोरी, मुराल्ला, रामगढ, वेलसर, सुल्तानपुर, हमीरपुरा, नवलपुरा, किटुद, रतनपुर, सुसत्या, मोरघड़ी, नेहगाँव, सेमरला	कसरावद	खरगोन, मध्य प्रदेश
4.	मिर्जापुरा, भातुड़, बहादरपुरा, रूपखेड़ा, खमलाय	महेश्वर	खरगोन, मध्य प्रदेश
5.	गंगातखेड़ी, तालपुरा, खेड़ी, निमसर, खैयगाँव, चकबठोली, निमगुल	पुनासा	खंडवा, मध्य प्रदेश
5.	मोरटक्का माफी, कटार, मोरघड़ी		

## 765 kV D/C लाइन खंडवा पूल – इंदौर

अनु क्र.	ग्राम का नाम	तहसील	जिला
1.	सेमरला, कपास्थल, ओझारा, ओझरा, मुराल्ला, वेलसर, रणगढ, रतनपुर, नवलपुरा, सुल्तानपुरा, गंगापुर भोरी, दामखेड़ा, हमीरपुरा, अमलाथा, किटुद, बफलगाँव, भाईगाँव, गंगवाड़ा, अस्तरिया, बांगरदा, बलवाड़ा, भीलखेड़ी, दूधापुरा, बेलम बुजुर्ग, घोघनाथ, जेठवाय, बिसनपुरी, पिढाय खुर्द, पिढाय बुजुर्ग, मालीपुरा, सासल्या बुजुर्ग, पिपलझर, टेमला, पिपलूद, भोगासा, मगावा, चंदनबोलाई, सुरपाला, रूपाला, बाडीखार, अथवान, हनुमंत्या, दौलतपुरा, हीरापुर, जयमलपुरा, बावडीखेड़ा, नावघाट खेड़ी, डेहरिया, टोकी, रूपाबेड़ी, रूपाबर्डी, सिरलाय, बड़वाह, नीमझिरी, रामपुरा, अगरवाड़ा, नांदिया, आरी, करिया माल, करियामाल, लुहारपुरा, बफलगाँव, नरसिंगपुरा, गाडरया, खेड़ी नजदीक पिढाय, जेठवाय, बामनपुरी, नाया, पाड़ी बुजुर्ग, पाड़ी खुर्द, खमखेड़ा, पिढाय खुर्द, बड़दिया बुजुर्ग, जामन्या, चिचाला, चिचला, बेरवा, इठवां, आठवां, सैलदा, बोट्या, बोधिया, लालपुरा, झिगड़ी, पाला पालासह, पारसखेड़ी, हनुमंत्या, भिकुआपुरा, कुरावद, गोबरीखेड़ा, बरझर, नयापुरा, अरोंदा, बेकल्या, कुंडिया, सेंधवा, थरवर, बड़गावाँ, बरगना, करोंदिया, कालापाठा, चैनपुरा, जामन्या, मेहता खेड़ी, भीलखेड़ा, रमाणा, पडाली खुर्द, पिजारखेड़ी, सापट, सोरठी बारुल, सालखेड़ा, गवलनपाटी, अकाया	बड़वाह	खरगोन, मध्य प्रदेश
2.	पाटड़ा, डुंगरिया, रणयार, गोगिया, सुनवानी करड़, रेवाड़ी, टिमरनी, टिगरिया गोगा, पाडल्या, गोंदलिया, भड़ा पिपल्या, गगड़दी, छापरी, निवानिया, टिगरिया छोटा, नागोरा, नारायणगढ, कुमारिया, पार्वतीपुर, नागझिरी, नागदा, सुकलिया, सुकल्याक्षिप्रा, सुनवानी महाँकाल, अलीपुर, तुमनी, गदइशापिपल्या, लोहार पिपल्या, अमोना, बारोड़पिपल्या, हवनखेड़ी, गोंदलिया, कुमरिया, मरेठी	देवास	देवास, मध्य प्रदेश
3.	तिंछा, काचरोट, मुहाड़ी, तिल्लोर बुजुर्ग, तिल्लोर खुर्द, केवड़िया, बिहाड़िया, जामन्या खुर्द, राजधरा, मुण्डलादोसदार, उज्जैनी, उमरिया खुर्द, सनावदिया, सोनगुराड़िया, धामनाय, कापल्या खेड़ी, दूधिया, असरावद बुजुर्ग, हासाखेड़ी, मालीखेड़ी, बड़ियाकीमा, आम्बामोलिया, रामगढ, गारीपिपल्या, बिचोली हप्सी, टिगरिया राव, कनाड़िया, बेगमखेड़ी, चौहानखेड़ी, साहूखेड़ी, छिटकाना, कत्रीखेड़ा, झलारिया, हिगोनिया, उपडीनाथा, बिसनखेड़ा, बुरानाखेड़ी, बरोदाकारा, खाती पिपल्या, जगमाल पिपल्या, निंगोटी, पानोड़, बाल्याखेड़ा, सारोलिया, पिपलदा, कपेल, उंडेल, पिवड़ा, भिंगरिया, सिंधी बरोदा, बावल्या खुर्द, काजीपलास्या, खुडैल बुजुर्ग, भुलेत, अरन्या, आशाखेड़ी, मुंडी, रामूखेड़ी, मुंडला जेतकरण, खुडैल खुर्द, सेत खेड़ी, गोगा खेड़ी, दण्डालाखेड़ी, धतुरिया, भूखा	इन्दौर	इन्दौर, मध्य प्रदेश

अनु क्र.	ग्राम का नाम	तहसील	जिला
4.	खेडी, अंक्या, आक्या, मोलाय, धाकनाखेडी, गरिया, खेमाणा, बरोदाकारा, बरोदा दौलत, सेमल्याचाऊ, सिमाल्याचाऊ, ईश्वरखेडी, शक्कर खेडी, हरन्या खेडी, जलोदकेऊ, जानी, नयापुरा, घुडिया, चिकाट्या, लसूडिया अनंत, मोरोदहाट, धुलेट, अरन्या	कसरावद	खरगोन, मध्य प्रदेश
5.	हीरापुर, डेहरिया, रामपुरा, नांदिया, उमरिया, लालपुरा, कुंडिया, करोंदिया, करोदिया	महेश्वर	खरगोन, मध्य प्रदेश
6.	गव्हाली, सुरतीपुरा, गजिन्दा, सेण्डल, मेण्डल, चिखली, पठान पिपल्या, तेल्याखेडी, तेलीखेडा, सोनवाय, भिंगरिया	महू	इंदौर, मध्य प्रदेश
7.	मोरटक्का माफी, कटार, मोरघडी	पुनासा	खंडवा, मध्य प्रदेश
8.	बडूद, भुलगाँव, नंदगाँव, डेलवाडा, रुपखेडा, सनावद, रामपुरा, हीरापुर, अली खुर्द, अली बुजुर्ग, खुजरात खेडा, गलगाँव, टोकसर, पीतनगर	सनावद	खरगोन, मध्य प्रदेश
9.	मुंडलाबाग, सुल्लाखेडी, कदावली बुजुर्ग, कदावली खुर्द, पलासिया, राहूखेडी, लसूडिया परमार, डकाच्या, सिलोतिया, पीरकराडिया, बरोदा अर्जुन, बरलाई जागीर, खाकरोड, राम पिपल्या, अमली खेडा, टोडी, ब्राह्मन पिपल्या, कदवा, धनखेडी, मुंडला हुसैन, शाहणा, जेतपुरा, राजोदा, सिलोदा बुजुर्ग, तराना, दर्जी कराडिया, मालाखेडी, गुरान, मकोडिया, मगरखेडी, हतुनिया, पटवाखेडी, पुवार्द दाई, पुवाड हप्पा, मेलकलमा, व्यासखेडी, फरसपुर, भोंडवास, मण्डलावदा, क्षिप्रा, बूढी बरलाई, पीरकराडिया, बरलाई जागीर, पुवरददाई, मच्छूखेडी, न्यू मालाखेडी, जामोदी, खाड़ाखेडी	साँवेर	इंदौर, मध्य प्रदेश

मार्ग रेखीकरण की प्रतियाँ अधो-हस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध हैं। आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे प्रस्तावित प्रसारण के विषय में अपने मत/प्रतिवेदन इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से दो माह के भीतर अधो-हस्ताक्षरी के कार्यालय में लिखित स्वरूप में जमा कराएँ। अधिक जानकारी तथा स्पष्टीकरण के लिए कृपया संपर्क करें:

श्री टी.ए.एन. रेड्डी  
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
खरगोन ट्रांसमिशन लिमिटेड  
एफ-1, दि मीरा कॉर्पोरेट सुइट्स,  
1 और 2 ईश्वर नगर, नई दिल्ली-110065

बिल एंड पैगी ब्रीट विपणन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

नई दिल्ली-110024

कंपनी पंजीकृत संख्या U74140DL1998PTC094521

सूचना

सूचना एतातद्वारा सामान्य जानकारी के लिए दिया जाता है कि बिल एंड पैगी ब्रीट विपणन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अपने पंजीकृत कार्यालय में सोमवार 17 अक्टूबर 2016 को आयोजित असाधारण बैठक में कंपनी स्वेच्छा से समापन के लिए निम्न विशेष प्रस्ताव पारित किया गया।

यह प्रस्ताव कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 488 के प्रावधानों (1), 484 (1)(बी) और कंपनियों के अन्य लागू प्रावधान के अनुसार पारित किया जा सकता है कि कंपनी का अपनी स्वेच्छा से समापन हो

यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि सक्षम घोषणापत्र जो कि फार्म नं. 149 कम्पनी (अदालत) नियम 1959 के अनुरूप बैठक में रखा गया और इसे मंजूरी दे दी गयी जो कि कंपनी के बहुसंख्यक निर्देश को श्री विनय विनायक अंबरडेकर और श्रीमान शुशील सुधीर परालकर द्वारा हस्ताक्षर एवं सत्यापित किया जाये तथा इसे कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ जमा किया जाये

आगे यह प्रताव पारित किया जाता है की श्री अनिल कुमार पोपली व्यवहार में कंपनी सचिव है को परिसमापक अधिकारी नियुक्त किया जाता है बोर्ड ने फैसला किया है कि परिसमापक अधिकारी का पारिश्रमिक बोर्ड द्वारा निश्चित किया जाये और परिसमापक अधिकारी को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत सभी शक्तियों का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

मंडल द्वारा आदेश  
बिल एंड पैगी ब्रीट विपणन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड  
अनिल कुमार पोपली  
वी. परिसमापक  
दिनांक : 31.10.2016

डॉयचे सिक्वोरिटीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

सीआईएन : U74920DL1999PTC097767

नई दिल्ली-110001

सार्वजनिक नोटिस

सूचना एतद्वारा धारा 485 के प्रावधानों के अनुसार दिया जाता है (1) कंपनी अधिनियम, 1956 की कंपनी की अपनी चौथी असाधारण आम बैठक में डॉयचे सिक्वोरिटीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों पर आयोजित की है कि शुकवार, 30 वीं सितम्बर, 2016 और अधिक पढ़ें कैपिटल, C70, जी ब्लॉक, मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई) पर 05.00 बजे, मुंबई 400051 भारत में, निम्न विशेष प्रस्तावों को पारित कर दिया :

हल :-

1. धारा 484 के प्रावधानों के अनुसार (1) (बी) और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, कंपनी अधिनियम, 1956, और शोधन क्षमता की घोषणा के संबंध में कंपनी रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र के निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है और जन्म की मुंबई, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 488, बताते हुए तहत उस कंपनी समापन करण, कंपनी इसीई हाउस को कार्यालय में पंजीकृत होने के प्रारंभ से 36 महीने की अवधि के भीतर पूरा में अपने कर्ज का भुगतान करने में सक्षम होगा, 28 KGMARG नई दिल्ली, दिल्ली भारत-110001 किया और इसके द्वारा स्वेच्छा से घाव और उन जो फायदेमंद ऐसे व्यवसाय के समापन के लिए आवश्यक हैं, सिवाय इसके व्यापार पर ले जाने के लिए संघर्ष करेगा।

2. कंपनी अधिनियम, 1956, और अन्य लागू प्रावधानों की धारा 490 के अनुसार, यदि कोई हो, कंपनी अधिनियम, 1956 की है, श्री हिमांशु कामदार हो सकता है और इसके द्वारा पर कंपनी के समापन के प्रयोजन के लिए परिसमापक के रूप में नियुक्त किया जाता है रुपये का पारिश्रमिक। 2,00,000/- (रुपये दो ही लाख) वास्तविक में जेब खर्च और अन्य परिसमापन खर्च से बाहर के अनन्य।

3. श्री हिमांशु कामदार, परिसमापक हो सकता है और इसके द्वारा अन्य बातों के साथ बिजली की नियुक्ति या सलाहकार, एकाउंटेंट, अन्य पेशेवरों की सेवा जारी रखने के लिए सहित प्रति कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 512 के रूप में उल्लेख सभी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है और उन्हें आरोप लगाया वास्तविक राशि पर पारिश्रमिक देना करने के लिए; उपरोक्त के रूप में परिसमापक की नियुक्ति पर।

4. बोर्ड और कंपनी के अधिकारियों की शक्ति समाप्त हो जायेगा, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 491 के प्रावधानों के अनुसार;

5. कंपनी के किसी भी दो निदेशकों या किसी भी एक निदेशक और कंपनी के कंपनी सचिव हो सकता है और इसके द्वारा के रूप में और जब आवश्यक इस संकल्प की एक प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि जारी करने के लिए अधिकृत कर रहे हैं।

डॉयचे सिक्वोरिटीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के लिए  
(घुमावदार सदस्यों / स्वैच्छिक में)

हिमांशु कामदार  
समापक

दिनांक : 02.11.2016  
प्लेस : दिल्ली

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

मुंबई-400051

शुद्धिपत्र

यह शुद्धिपत्र गजट अधिसूचना संख्या 46 दिनांक 12 नवम्बर 2016 (12 नवम्बर-18 नवम्बर 2016) के संदर्भ में है (जो भारत के गजट के भाग 4 में प्रकाशित हुआ था) जिसमें नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के बहिर्नियमों और अंतर्नियमों में प्रस्तावित ड्राफ्ट संशोधन को जनरल क्लॉजिंग एक्ट, 1897 की धारा 23 के प्रावधानों के अनुसार आलोचना के लिए प्रकाशित किया गया था। गलती से नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के बहिर्नियमों में निम्न संशोधन प्रकाशित होना रह गया था। कोई भी व्यक्ति जिसे प्रस्तावित दस्तावेज में कोई त्रुटि नजर आती है, वह उसे लिखित में अधोहस्ताक्षरी के पास एक्चेंज प्लाजा, दूसरी मंजिल, 'बी-2' विंग, प्लॉट सी-1, ब्लॉक जी, बांद्रा-कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुम्बई-400051 के पास प्रकाशन की तिथि के बाद 15 दिन के अंदर भेज सकता है। ऊपर वर्णित तिथि के बाद प्राप्त अवलोकनों पर दस्तावेजों पर विचार करते समय विचार नहीं किया जाएगा।

1. कम्पनी के बहिर्नियमों में प्रस्तावित संशोधन (बोल्ड में दिए गए शब्दों को शामिल करना है और काटे गए शब्दों को हटाना प्रस्तावित है):-
- V.\* कम्पनी की अधिकृत शेयर पूंजी 50,00,00,000/- (पचास करोड़ केवल) जिसे कम्पनी की पूंजी को बढ़ाने और कम करने की शक्ति के साथ ~~10 रुपये (दस रुपये) प्रति के 5,00,00,000~~ 1 रुपये (एक रुपये) प्रति के 50,00,00,000 (पचास करोड़) इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया है।
2. परिणामस्वरूप, हमारी गजट अधिसूचना संख्या 46 दिनांक 12 नवम्बर 2016 (12 नवम्बर-18 नवम्बर, 2016) (भारत के गजट के भाग 4 में प्रकाशित) में प्रकाशित संशोधनों की क्रम संख्या भी इसके अनुसार बदल जाएगी।

नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए

एस. माधवन

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

टिप्पणी : हिन्दी पाठ में भिन्नता की स्थिति अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा।

-----

## Khargone Transmission Limited

New Delhi-110065

CIN- U40300DL2015GOI287933

## Public Notice

Khargone Transmission Limited (KTL) having its registered office at F-1 "The Mira Corporate Suites" 1 & 2 Ishwar Nagar, Okhla Crossing, Mathura Road, New Delhi-110065, India, intends to apply to the Government of India to confer upon him all the powers under Section-164 of the Electricity Act, 2003 for the placing of electric lines or electrical plant for the transmission of electricity or for the purpose of telephonic or telegraphic communication necessary for the proper coordination of works which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or followed by commissioning, operation, maintenance and other works by the Government for the following transmission schemes-

Name of the transmission Company- Khargone Transmission Limited

Works Covered under the company-

A. Connectivity system for Khargone STPP

- i. LILO of one ckt of Rajgarh-Khandwa 400kV D/C line at Khargone TPP (The LILO shall be used for startup power and commissioning activities requirement.

After commissioning of balance transmission system, the LILO would be bypassed at Khargone generation switchyard and may be utilized only under contingency condition)

- ii. Khargone TPP Switchyard-Khandwa pool 400kV D/C (Quad) line

B. System Strengthening in WR in time frame of Khargone TPP

- i. Khandwa Pool-Indore 765kV D/C line
- ii. Khandwa Pool-Dhule 765kV D/C line
- iii. Establishment of 765/400kV, 2x1500MVA pooling station at Khandwa 765 kV

- ICTs : 7x500MVA, 765/400kV (1 spare unit)
- ICT bays: 2 No.
- Line bays: 4 no. (2 no. for Khandwa pool-Indore 765 kV D/C & 2 no. for Khandwa Pool to Dhule 765kV D/C)
- Bus reactor : 3x80 MVar
- Bus Reactor bay: 1 no.
- Switchable Line reactors : 7x80 MVar (1 unit is as a spare unit) for Khandwa Pool-Dhule 765kV D/C (each 240 MVar reactor with 800Ω NGR along with its auxiliaries)
- Space for line bays (future): 4 no.
- Space for ICT bays (future): 3 no.
- Space for 1500MVA, 765/400kV ICTs (future): 3No.

400kV

- ICT bays: 2 no.
  - Line bays for termination of Khargone - Khandwa PS 400kV D/C Line: 2 no.
  - Bus reactor : 1x125MVar
  - Bus reactor bay :1
  - Space for line bays (future): 6 no.
  - Space for ICT bays (future): 3 no.
- iv. 2 Nos. of 765 kV bays and 7x80MVA r line reactors (1 unit as spare) along with 800 Ω NGR & its auxiliaries for Khandwa Pool-Dhule 765 kV D/C at Dhule 765/400kV substation of M/s BDTCL.

The above transmission project has been accorded approval by the Government of India, Ministry of Power vide its letter dated 02.02.2016 under section 68 of the Electricity act 2003.

The transmission lines covered under the scheme will pass through, over, around and between the following of Tehsils, Talukas, Mandals, Block, villages, town & cities.

Khandwa Pool-Dhule 765kV D/C Transmission line

S. No.	Name of Villages	Tehsil	District
1	KATAR, MORTAKKA MAFI, MORGHADI	PUNASA	KHANDWA (EAST NIMAR), MADHYA PRADESH
2	SANAWAD, KHANGAON, ROOPKHEDA, NANDGAON, DELWADA, RAMGADH, KATGARHA, ALI BUJURG, DHAN PALYA, ALI KHURD, TOKSAR, TOKSAR KHURD, BADUD, GAWAL, SATAJANA, GALGAON, KALWARAD, AGARGAON, KHUJRATKHEDA, PEETNAGAR, FANGAON, RAHATKOT, NEELKANTH, BHULGAON, NEEMKHEDI, CHITAWAD, TAMOTIA, BHOGAON, ROOP KHEDI, NEHGAON, BHOGAON SIPANI, MAHEGAON, MOHGAON, KHARKAI, KANKARIYA, JAYKHEDI, NIMSAR, UMTTI, RAVAR, RAVAR KHURD, KHEDI, PALCHA, SANGVI, BADGAON, BHOGAON NIPANI, CHICHGOHAN, JANYAKHEDI, TAJPURA, DALYAKHEDI, KHANPURA, SIKANDARKHEDI, BHAGOURA, DUDGAON, DUDAGONE, BHUGDAD, BHATUD, DABHAD, JULWANIYA, AARSI MIRJAPURA, TAKLI, RAMPUR, SAJARWAN, KATORA, KANAPUR, BAKAWAN, MARDANA, NAGAWAN, SHAHPURA, AMARPURA, LOUNDI, JIRBHAR, BIJGOHAN, DALCHI, SELDA, MIRZAPUR, KEDI BUJURG, DABAR, BALABAD, NALWAT, NANDIYA, KAPASI, SALA, BELSAR, RAVERKHEDI, PIPALGOHAN, JAMANYA, BHOKARIYA, RAJPURA, KHAMLAI	SANAWAD	KHARGONE (WEST NIMAR), MADHYA PRADESH
3.	PIPALPATI, BADADIYA SURTA, CHAKBATHOLI, TAJPURA, BATHOLI, LAKHANPURA, DAMKHEDA, DHUNBATIYA, GANGAATKHEDI, KHAIGAON, DEVANLYA, NIMGUL, BHAMPURA, BHAGADPURA, SITOKA, KAWADIYA, PITAMALI, SEMLADA, HIRAPUR, NAVALPURA, KANKARIYA, HAMIRPURA, GHUWATYA, NIMSAR, BARLAI, SULTANPURA, KEDI BUJURG, GAUL, DEHARIYA, AHILYAPURA, KARONDIYA, SANGAVI, KHEDI, JAMANYA, KUNDIYA, SURWA, MIRZAPUR, RAJPURA, ROOPKHEDA, GAWALA	MAHESHWAR	KHARGONE (WEST NIMAR), MADHYA PRADESH
4.	BARWAHA, DEHARI, KEDI BUJURG, TOKI, HIRAPUR, JAYMALPURA, BAPHAL GAON, RATANPUR, SUSTYA, RAMGADH, BELSAR, NAVALPURA, KIDHUD, GANGWADA, BHAIGAWA, SULTANPURA, MURALLA, HAMIRPURA, KAROND, AMLATHA, GANGAPURA BHORAI, SAGKHEDA, OJHARA, SEMARLA, KAPASTHAL, TOKSAR KHURD, KALWARAD, SIRLAI, LAKHANPURA, SANGVI, SELDA, NANDIYA, KHAMKHEDA, AHILYAPURA, UMARIYA, JAMANYA, GAUL, KUNDIYA, PANDHANIYA, TEMLA, BARKHEDA, RAJPURA, CHANDANPURA, ROOPKHEDA, NEHGAON	BARWAHA	KHARGONE (WEST NIMAR), MADHYA PRADESH
5.	KHEDI BUJURG, KHARADI KHURD, SURWA, MORALA, SAHEJALA, KAMODWADA, KHEDI KHURD, MOHALI, BHANGAON, BHOPADA, DEHARIYA, BHATYANA KHURD, DOMWADA BUJURG, NANKUND, MULTHAN, BHATUD, PANCHDEVALI, GIRDIYAVAN, KHAMKHEDA, KANANDGAON, BALWADA, KAWDEE, SAGAVI (KHAMKHEDA), GAULPURA, CHAKRIYA, DABHA, KHAMLAY, BADEE, PIPARI, PIPALGONE, BHAGYAPUR, BARKHEDA, SAMEDA, SARVAR DEVLAI, BAHADARPURA, PIPLAI, BORAWAN, UMARIYA, BAYTEL, UTAWAD, BHANGAON, KAWADI, DEDGAON, DURGAPUR, MATHDAY, SIPTAN, SATWADI, GAUL, RAMPURA,	KASRAWAD	KHARGONE (WEST NIMAR), MADHYA PRADESH



S. No.	Name of Villages	Tehsil	District
6	BHULGAON, BORGAON, BAMKHAL, BARSALAY, KONDAPUR, RAYPURA, MURADABAD, SADHUPURA, MUKUNDPURA, SANGVEE, SONKHEDI, JAMLA, CHANDANPURI, GHATBERA, SANGVI, LASHKARPURA, SOMAPURA, JAWDA, SAWDA, BITHER, NARAYANPURA, BESARKUND, POKHAR, SABDA, DHARMPURI, AGHAWAN, SELANI, BALLYAPURA, SAILANI, KHEDI, GUJARI, BALKHED BUJURG, TEMRNI, JALJYOTI, KUSUMPURA, SURVAA, BHOKARIYA, SINGUN, BALAKWADA, KUNDIYA, MUKHALIYAPURA, BADYA, KATARIYA, RASWAN, BAIGANDI, MIRJAPURA, HIRAPUR, NANDIYA, DOMWADA KHURD, HAMIRPURA, RUPKHEDA, ARSI MIRJAPURA, AHILYAPURA, KARONDIYA, KEDI BUJURG, BHARCHO, GOPALPURA, OJHARA, BAJITPURA, MANCHAR, RAHIMABAD, LOHARI, JAMANYA, PIPALJHOPA, HATOLA, SAIKHEDA, AMLATHA, RAJPURA, BHARANYA, BHATYANA BUJURG, ROOPKHEDA, BALKHAD KHURD, BALKHAD BUJURG, SATANPURA, MUKHALIYAPURA, AAWALYA	BHIKANGAON	KHARGONE (WEST NIMAR), MADHYA PRADESH
7	SURWA, DOMWADA BUJURG, MULTHAN, SATWADI, VAYTEL, RATANPUR, KAKARGAON, VITNERA, HIRAPUR, PIPARI, RAMPURA, JAMANYA, TEMPLA, PIPARI, DONGARGAON, BANJARI, RAJPURA, POKHAR BUJURG, SALA, PADALYA	KHARGONE	KHARGONE (WEST NIMAR), MADHYA PRADESH
8	BAIGANDI, GHUGHRI, LATIFPURA, MITHAPURA, IMLIPURA, LIKKHI, RAMANGAON, RAJUR, RAMPURA (JULWANIYA), PANDHANIYA, CHHALPA, IDARATPUR (INAMI), NIMGUL, MENGAON, RAMPURA (AASANGAON), AASANGAON, TEMALA, PIPARI, UBADI, AGHAWAN, AKAWALIYA, GAWALA, ICHAPURA, BAGUD, NANDGAON (BAGUD), AAWLI, DEHRI, SAIKHEDI, LONARA, DHEGAON, BHAMORI BUJURG, CHITAWAL, DAMKHEDA, BAHADARPURA, SHAHPURA, AURANGPURA, LOHARI, NARAYANPURA, HASANPURA, DASANGA, BARKHEDA, BHAMORI KHURD, KEDI BUJURG, GAUL, DABHAD, AGHAWAN, POKHARKHURD, PIPRATA, POKHARBUJURG, SALYAA, BALKHAD BUJURG, BALKHAD KHURD	GOGAON	KHARGONE (WEST NIMAR), MADHYA PRADESH
9	JAMNIYA, KHAMKHEDA, PIPLAI, GOPALPURA, KUNDIYA, JULWANIYA, DONGARGAON, DASNAWAL, KEDI BUJURG, GAUL, PIPARKHEDA, RUPKHEDA, AAWLI	SEGAON	BARWANI, MADHYA PRADESH
10	GANDHAWAD, RASGAON, BARNA, CHITAWAL, GATLAKHEDI, BANDYAPURA, KACHNARWADI, DASNAWAL, KHIRKIYA WADI, BHURAPANI, SATAWAD, KAMODWADA, BIRLA, JAMNYA, DHORYAWADI, JALGONE, TALAKPURA, GYASPURA, JAMOTHI, PANWADA, PANAALI, UPADI, BORI, KELEE, BANIHAR, CHICHAGADH, AACHALWADI, CHICHLI, SHEETAPURI, SHARADPURA, JOJALWADI, DAMKHEDA, KHAMKHEDA, LEHKU, GOLWADI, DOMWADA, BHIKARKHEDI, SEGAON, KHOLGAON, KALAMPURA, PADALA, BOBALWADI, NILKANTH, GOLPURA, TIREE, KOLKHEDA, SATAWAD, DAVLATPIPARI, CHANDAWAD, KEDI BUJURG, GAUL, JOGWADA, REHGUN, SEGAWI, BANEERHAR	THIKRI	BARWANI, MADHYA PRADESH
11	RASWAN, RUPKHEDA, KEDI BUJURG, GAUL, LAHADGAON, BHAGWANPURA, BAGHAD, SHAHPURA, KAKRIYA, GAWALA, PIPARKHEDA	RAJPUR	BARWANI, MADHYA PRADESH
	GHUSGAON, KADWI, BOBALWADI, BHORWADA, GOLPURA, LAHADGAON, TAKLI, KHAPARKHEDA, OJHAR, LAFANGAON, NANDED, SALI TANDA, SALI KALAN, BAGHAD, AWALYA, NEELKANTH, NAGALWADI KHURD, NAGALWADI BUJURG, DEONALI, MATMUR, KEDI BUJURG, GAUL, SALIKHURD, JULWANIYA, CHITAWAL, BHULGAON, RUI		

S. No.	Name of Villages	Tehsil	District
12	PIPARKHEDA, SHIRPUR, JAMANYA, JAMPATI, JAMLI, KALADA, VAKI, BAKEE URF GOI, TALAKPURA, VANIHAR, MEHADGAON, TIGHALI, GHUDCHAL, KUSMI, KALAPAT, JHAPDI PADLA, RAJGARH, PIPALYA DEV, KOLKHEDA, SHIVANYAPANI, RALAWATI, CHIKHLI, MORDAR, BIJAPURI, PIPALDHAR, SENDHWA, NAWALPURA, BORLI, JULWANIYA, SEGAWI, ANJANGAON, KANKARIYA, BHAMANYA, BAWADAD, BABDHAR, SHAHPURA, GODI, HINDLI, MUHALA, BHAWARGARH, SOLWAN, MALWAN, ACHHALI, BAKHTARIYA, DONGARGAON, JAMANYA, RAIKHEDA, GAUNDI, HINDALI, MADSINGYA, KUNDIYA, KOLKI, RAJMALI, UMARIYA, MURATMAL, AMBAPANI, NANDIYA, RAIKHEDA, GAWADI, KAKADMAL, MURATMAL, KHAPARKHEDA, PANJRIYA, KAMODWADA, SHIVANYA, PIPALYA (GOI), MADGAON, SEMALYA, KEDI BUJURG, PIPARKHEDA, KOLKI, BORGHAT, JOD MOHRA	SENDHWA	BARWANI, MADHYA PRADESH
13	KUNDIYA, MALWAN, SOLWAN, KOLKI, BHAWARGARH, RAJMALI, UMARIYA, MURATMAL, AMBAPANI, NANDIYA	VARLA	BARWANI, MADHYA PRADESH
14	JAMANYA, RAIKHEDA, GAWADI, KAKADMAL, MURATMAL	NIWALI	BARWANI, MADHYA PRADESH
15	KAKADMAL, DUBUNDYA, DURBADYA, PALASNER, KHERKHUTY, PANAKHED, SHEMALYA, MOHIDE, VAKVAD, UMARDE, JENDEANJAN, HATED, SANGVI, JOYEDA, VARZADI, HADAKHED, BUTKI VIHIR, DONDVAD, BORADI, CHANDIPADA, KHARIKHAN, TEMBHEPADA, ARUNAPURI, NANDARDE, VAGHBARDA, SAMRYAPADA, HINGONI, LAUKI, NATVADE, SULE, DAHIVADH, AJANDE KHURD, KALAMSARE, KARVAND, MANDAL, SUBHASH NAGAR, NIMZARI, VAGHADI, VADI KHURDE, VADI KURVE, ARTHE, CHANDPURI, HINGONIPURA, BHARVADE, RUDAVALI, JATODE, BORGAON, HINGOI, SHINGAVE, SHIRPUR, AAMODE, GARTAD, AADE, TAJPURI, JAIPUR, PIMPRI, KHURKALI, SAKVAD, UNTAVAD, SAVLADE, BABHULDE, KHARDE KHURD, GIDHADE, BALDE, UPARPIND, SUKVAD, JAMNYAPADA, CHANDSURYA, VARVADE, NAVAPADA, ARTHE KHURD, KHAMKHEDA, PATHARDEE, VANAVAL, TEMBHE, CHONDI, KOLSHAPANI, HEDRYA, GUJAR KHARDE	SHIRPUR	DHULE, MAHARASHTRA
16	AKADSE, SONEWADI, VARSUS, PATAN, SULVADE, SUKWAD, TAVKHEDA, KHAMKHEDE, HUMBARDE, VADLI, SHIRALE, GAVANE, DATTANE, VARSHI, TEMLAY, CHIRNE, DASVEL, AJANDE KHURD, PIMPRAD, WARUD, JATODE, MELANE, NARDANA, KUMBHARE, DABLI, DHANDARNE, HOL, KADANE, BABULDE, MAHALPUR, KHALANE, CHANDGAD, VAIPUR, VITAI, GORANE, PIMPARKHEDA, SARVE, KALMADI, VALKHEDE, VAGHADI KHURD, VAGHADI, BABHALDE, SONDALE, DANGURNE, DARANA, DABHASHI, VAGODHE, NIRGUDI, MALICH, NAVAPADA	SINDKHEDE	DHULE, MAHARASHTRA
17	SONGIR, DAPURI, DAPURA, LONKUTE	DHULE	DHULE, MAHARASHTRA

LILO of one ckt of Rajgarh-Khandwa 400kV D/C line at Khargone TPP

S. No.	Name of Villages	Tehsil	District
1.	DALCHI, BIJGOHAN, LOUNDI, AMARPURA, SHAHPURA, KATORA, KANAPUR, TAKLI, BADGAON, KHANPURA, AARSI, AARSI MIRZAPUR, DABHAD, MARDANA, RAVAR, NAGAVAN, MALGAON, JHIRBHAR, JHIRANYA, MOHALI, BHATYAR BUJURG, SELDA, BAKANVA, MARDANA, KHEDI	SANAWAD	KHARGONE, MADHYA PRADESH

S. No.	Name of Villages	Tehsil	District
2	SANGVI, JHULWANYA, SELDA, BALWADA, LOUNDI	BARWAHA	KHARGONE, MADHYA PRADESH
3.	AARSI MIRZAPUR, KHEDI	KASARAWAD	KHARGONE, MADHYA PRADESH
4.	JHIRANYA	MAHESHWAR	KHARGONE, MADHYA PRADESH

## KHARGONE TPP SWITCHYARD- KHANDWA POOL 400kV D/C QUAD LINE

S. No.	Name of Villages	Tehsil	District
1.	DABHAD, AARSI MIRJAPURA, BHAGAURA, BHATUD, KHANPURA, DALYAKHEDI, DUDGAON, SIKANDAR KHEDI, CHICHGAON, BHOGAON NIPANI, BHOGAON SIPANI, KAPASI, NEEMKHEDI, NEELKANTH, BHULGAON, AGARGAON, KALBARAD, SATJANA, RAIJHAR, KHUJRAT KHEDA, GALGAON, GAWAL, RUPKHEDA, SANAWAD, ROOPKHEDI, TOKLAI, KHANGAON, DELWADA, BADUD, NANDGAON, DALCHI, JIRBHAR, BADGAON, RAVAR KHEDI, PACHLA, UMTTI, KANKARIA, FANGAON, DHULWADA, JANAIYA KHEDI, KHEDI, TAJPURA, BAKANVA, RAHADKOT, JAIKHEDA, PEETNAGAR, BHANWARDA, TOKSAR, DHANPALIYA, ALI BUJURG, ALI KHURD, BHUGDAD, DUDAGAON, BHOGGAON, CHITAWAD, BEDIYA, LACHOURA, MORGHADI, RAVAR, TONKSAR KHURD, SELDA	SANAWAD	KHARGONE, MADHYA PRADESH
2.	BALABAD, JULWANYA, KAPASTHAL, OJHARA, GANGAPURA BHORAI, MURALLA, RAMGADH, BELSAR, SULTANPUR, HAMIRPURA, NAVALPURA, KITHUD, RATANPUR, SUSTYA, MARGHADI, NEHGAON, SEMARLA	BARWAHA	KHARGONE, MADHYA PRADESH
3.	MIRJAPURA, BHATUD, BAHADARPURA, RUPKHEDA, KHAMLAY	KASRAWAD	KHARGONE, MADHYA PRADESH
4.	GANGAT KHEDI, TAJPURA, KHEDI, NIMSAR, KHEYGAON, CHAKBHATOLI, NIMGUL	MAHESHWAR	KHARGONE, MADHYA PRADESH
5.	MORTAKKA MAFI, KATAR, MORGHADI	PUNASA	KHANDWA, MADHYA PRADESH

## KHANDWA POOL -INDORE 765 kV DC LINE

S. No.	Name of Villages	Tehsil	District
1	SEMARLA, KAPASTHAL, OZARA, OJHARA, MURALLA, BELSAR, RANGARH, RATANPUR, NAVALPURA, SULTANPURA, GANGAPURA BHORAI, DAMKHEDA, HAMIRPURA, AMALATHA, KITHUD, BAFALGAON, BHAIGAWAN, GANGWARA, ASTARIA, BANGARDHA, BALWADA, BHILKHEDI, DUDHAPURA, BELAMPUJURG, GHOGNATH, JETHWAY, BISANPURI, PIDHAY BUJURG, PIDHAI BUJURG, MALIPURA, SASALIYA BUJURG, PIPALJHAR, TEMPLA, PIPLUD, BHIOGASHA, MONGARGAON, CHANDANBOLAI, SURPALA, RUPLA, BANDIKHAR, ATHWAN, HANUMANTYA, DAULATPURA, HIRAPUR, JAIMALPURA, BAVDIKHEDA,	BARWAHA	KHARGONE, MADHYA PRADESH

S. No.	Name of Villages	Tehsil	District
	NAAVGHAT KHEDI, DEHRIYA, TOKI, RUPABEDI, RUPABARDI, SIRLAY, BARWAHA, NEEMJHIRI, RAMPURA, AGARWADA, NANDIYA, AARI, KAYARIA MAL, KRIAYA MAL, LOHARPURA, BAFGPHAL, NARSINGHPURA, GADARIA, KHEDI NAJDIK PIDAY, JETHWAY, BAMANPURI, NAYA, PADI BUJURG, PADI KHURD, KHAMKHEDA, PIDHAIKHURD, BADADIYA BUJURG, JAMNYA, CHICHALA, CHICHLA, BERAWA, ITHAWA, ATHAWA, SAILDA, BOTHIYA, BODHYA, LALPURA, JHIGADI, PALASIA PALA, PARASKHEDI, HANUMANTYA, BHIKUAPURA, KURAWAD, GOBRIKHEDA, BARJHAR, NAYAPURA, ARODA, BEKALYA, KUNDIYA, SENDWA, THARWAR, BARGAWAN, BARGANA, KARONDIYA, KALAPATHA, CHAINPURA, JAMANIYA, MEHTA KHEDI, BHEELKHEDA, RAMANA, PADLIKHURD, PIJARKHEDI, SAPAT, SORTHIBARUL, SALKHEDA, GAWALANPATI, AKAYA		
2.	PATADA, DUNGARIA, RANAYAR, GOGYA, SUNWANI KARAD, REWADI, TIMARNI, TIGARIA GOGA, PADLYA, GONDALYA, BHADA PIPALYA, GANGARDI, CHHAPRI, NIWANIYA, TIGRIA CHHOTA, NAGORA, NARAYANGARH, KUMARIYA, PARWATIPURA, NAGJHIRI, NAGDA, SUKLIYA, SUKLYA, SUNWANIMAHANKAL, ALIPUR, TUMNI, GADASHAPIPALYA, LOHAR PIPALYA, AMONA, BARODA PIPALYA, HAWANKHEDI, GONDALYA, KUMARIYA, MARETI	DEWAS	DEWAS, MADHYA PRADESH
3.	TINCHHA, KACHARAD, MOHADI, TILLOR BUJURG, TILLOR KHURD, KEWADIYA, BIHIDIYA, JAMNYA KHURD, RAJDHARA, MUNDADOSDAR, UJJAINI, UMARIA KHURD, SANAWADIA, SONGURADIYA, DHAMNAY, KAPALYA KHEDI, DUDHIYA, ASHARABAD BUJURG, HANSAKHEDI, MALIKHEDI, BADIYAKEEMA, AMBAMOLYA, RAMGARH, GARI PIPALYA, BICHHOLI HAPASI, TIGRIARAO, KANADIA, BEGAMKHEDI, CHAUHANKHEDI, SAHUKHEDI, CHHITKANA, KATRIKHEDA, JHALARIA, HIGONYA, UPADINATHA, BISANKHEDA, BURANAKHEDI, BARODAKARA, KHATI PIPALYA, JAGMAL PIPALYA, NIGNOTI, PANOD, BALYAKHEDA, SAROLIYA, PIPALDA, CAMPAL, UNDEL, PEEVDAY, BHINGARIA, SINDHI BARODA, BAWALYA KHURD, KAJIPALASIA, KHUDEL BUJURG, BHULET, ARANYA, ASHAKHEDI, MUNDI, RAMUKHEDI, MUNDAL JETKARAN, KHUNDEL KHURD, SET KHEDI, GOGAL KHEDI, DANDALA KHEDI, DHATURIA, BHOKHA KHEDI, ANKYA, AKAYA, MOLAY, DHAKNAKHEDI, GARIYA, KHEMANA, BARODAKARA, BARODA DAULAT, SEMLIYACHAU, SIMALYACHAU, ISHVAR KHEDI, SHAKKAR KHEDI, HARANYA KHEDI, JALODKEU, JANI, NAYAPURA, GHUDIYA, CHIKATIYA, LASODIA ANANT, MORODHAT, DHULET, ARANYA	INDORE	INDORE, MADHYA PRADESH
4.	HIRAPUR, DEHRIYA, RAMPURA, NANDIYA, UMARIA, LALPURA KUNDIYA, KARONDIYA, KARODIYA	KASARAWAD	KHARGONE, MADHYA PRADESH
5.	HIRAPUR, DEHRIYA, RAMPURA, LALPURA, BADADIYA SURTA, DAMKHEDA	MAHESHWAR	KHARGONE, MADHYA PRADESH
6.	GAWHALI, SURTIPURA, GAJINDA, SENDAL, MENDAL, CHIKHLI, PATHAN PIPALYA, TELYAKHEDI, TELIKHEDA, SONWAY, BHINGARIA	MHOW	INDORE, MADHYA PRADESH
7.	MORTAKKA MAFI, KATAR, MORGHADI	PUNASA	KHANDWA, MADHYA PRADESH
8.	BADUD, BHULGAON, NANDGAON, DELWADA, ROOPKHEDA, SANAWAD, RAMPURA, HIRAPUR, ALI KHURD, ALI BUJURG, KHUJRATKHEDA, GALGAON, TOKSAR, PEETNAGAR	SANAWAD	KHARGONE, MADHYA PRADESH

S. No.	Name of Villages	Tehsil	District
9.	MUNDLA BAGH, SULAKHEDI, KADWALI BUJURG, KADWALI KHURD, PALASIA, RAHULKHEDI, LASODIYA PARMAR, DAKACHYA, SILOTIYA, PIRKARADIYA, BARODA ARJUN, BARLAJAGIR, KHAKROD, RAM PIPALYA AMLIKHEDA, TODI, BRAHMAN PIPALYA, KADWA, DHANKHEDI, MUNDLA HUSSAIN, SHAHNA, JAIPURA, RAJODA, SILODA BUJURG, TARANA, DARJI KARADIYA, MALIKHEDI, GURAN, MAKODIYA, MATCHER KHEDI, HATONIYA, PATWAKHEDI, PUWARDADRI, PAWARDA HAPPA, MELKAMA, VYASKHEDI, FARASPUR, BHONDWAS, MANDALWADA, KSHIPRA, BUDHI BARLAI, PIRKARADIYA, BARLAJAGIR, PUWARDADAI, MACHHUKHEDI, NEW MALKHEDI, JAMODI, KHANDAKHEDI	SAWER	INDORE, MADHYA PRADESH

Copy of the route alignment is available in the office of the undersigned. Notice is hereby given to the general public to make observation/representation on the proposed transmission system within two months from the date of publication of this notice to the office of the undersigned in writing. For further particulars and clarification please contact:

Mr. T.A.N. Reddy  
Authorized Signatory  
Khargone Transmission Limited  
F-1, The Mira Corporate Suites,  
1&2 Ishwar Nagar, New Delhi-110065

#### BILL AND PEGGY BRITT MARKETING INDIA PRIVATE LIMITED

New Delhi -110024

Cin No.U74140DL1998PTC094521

#### NOTICE

Notice is hereby given for general information that the members of Bill And Peggy Britt Marketing India Private Limited at an Extra-ordinary General Meeting of the Company held on Monday, 17th October, 2016 at its registered office, have passed the following Special Resolution to wind up the above Company voluntarily.

"RESOLVED that pursuant to the provisions of Section 488(1), 484(1)(b) and other applicable provisions of the Companies Act, 1956 as may be applicable, the Company be wound up Voluntarily.

RESOLVED FURTHER that Declaration of Solvency in Form no.149 of Companies (Court) Rules 1959 as placed in the meeting be and is hereby approved and same be signed and verified by majority of the directors i.e. Mr. Vinay Vinayak Ambardekar and Mr. Sushil Sudhir Paralkar respectively be filed with the Registrar of Companies, Delhi.

RESOLVED further that Mr. Anil Kumar Popli, Company Secretary in practice be and is hereby appointed as a Company Liquidator, on a remuneration as decided by the Board and that the said liquidator be and is hereby authorised to exercise all powers as specified under sections 512 and 546 read with section 457 of the Companies Act, 1956."

By order of the Board

For BILL AND PEGGY BRITT MARKETING INDIA PRIVATE LIMITED

ANIL KUMAR POPLI

V. Liquidator

Date: 31-10-2016

#### DEUTSCHE SECURITIES (INDIA) PRIVATE LIMITED

CIN: U74920DL1999PTC097767

New Delhi -110001

#### PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 485 (1) of the Companies Act, 1956 that the Members of Deutsche Securities (India) Private Limited ("the Company") at its Fourth Extra-Ordinary General Meeting of the Company

held on Friday, 30th September, 2016 at 05.00 p.m. at The Capital, C70, G Block, Mumbai Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai- 400 051 India, passed the following special resolutions:

RESOLVED THAT :—

1. pursuant to provisions of section 484(1)(b) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 1956, and having regard to Declaration of Solvency made by the Board of Directors and delivered to Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai, under Section 488 of the Companies Act, 1956, stating that the Company would be able to pay its debts in full within the period of 36 months from the commencement of the winding-up hereof, the Company having registered office at ECE HOUSE, 28 K.G.MARG NEW DELHI, DELHI INDIA-110001 be and is hereby wound up voluntarily and shall cease to carry on business, except those which are required for the beneficial winding of such business.
2. pursuant to Section 490 of the Companies Act, 1956, and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 1956, Mr. Himanshu Kamdar be and is hereby appointed as the Liquidator for the purpose of winding up of the Company at a remuneration of Rs. 2,00,000/- (Rupees Two Lacs only) exclusive of out of pocket expenses and other liquidation expenses at actuals.
3. Mr. Himanshu Kamdar, the Liquidator be and is hereby empowered to exercise all the powers mentioned as per Section 512 of the Companies Act, 1956, including inter alia, the power to appoint or continue the service of consultants, accountants, other professionals and to remunerate them on actual amounts charged;
4. upon the appointment of Liquidator as aforesaid, the power of the Board and officers of the Company shall cease, pursuant to the provisions of section 491 of the Companies Act, 1956;
5. any two Directors of the Company or any one Director and Company Secretary of the Company be and are hereby authorized to issue a certified true copy of this resolution as and when required.

For Deutsche Securities (India) Private Limited  
(In Members' Voluntary Winding Up)

HIMANSHU KAMDAR  
Liquidator

Date: 02.11.2016  
Place: New Delhi

#### NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED

Mumbai-400051

#### CORRIGENDUM

This has reference to the Gazette Notification No.46 dated November 12, 2016 (November 12—November 18, 2016) [published in Part IV of Gazette of India] wherein the draft amendments proposed to Memorandum and Articles of Association of National Stock Exchange of India Limited were published for criticism in accordance with the provisions of Section 23 of General Clauses Act, 1897. Inadvertently, the following amendment to Memorandum of Association of National Stock Exchange of India Limited was left out and is published herein for criticism. Any person having any observations on the proposed amendment can send the same in writing to the undersigned at Exchange Plaza, Second Floor, 'B-2' wing, Plot C-1, Block G, Bandra - Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051 within fifteen days from the date of publication. The observations received after the aforementioned date will not be considered when the aforementioned draft amendment will be taken for consideration.

1. Amendment proposed to Memorandum of Association of the Company (Words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted) :-
- V.\* The Authorised Share Capital of the Company is Rs. 50,00,00,000/- (Rupees Fifty Crores only) divided into ~~5,00,00,000~~ **50,00,00,000** (~~Five~~ **Fifty** Crores) equity shares of ~~Rs.10/-~~ **Re. 1/-** (~~Rupees Ten~~ **Rupee One** only) each, with power to increase and reduce the capital of the Company.
2. As a consequence, the serial numbers of amendments proposed in our Gazette Notification No.46 dated November 12, 2016 (November 12—November 18, 2016) [published in Part IV of Gazette of India] are renumbered accordingly.

For National Stock Exchange of India Limited

S. MADHAVAN  
Authorised Signatory

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में  
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2016

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,  
N.I.T. FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016

www.dop.nic.in